

# ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

(BSE LISTED COMPANY) CIN: L16000DL1987PLC396234

December 12, 2024

The Chief General Manager Listing Operation, BSE Limited, 20th Floor, P.J.Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.

Dear Sirs,

#### Sub: Corrigendum to the Notice of Extraordinary General Meeting published in newspapers.

Please find enclosed a copy of the Corrigendum to the Notice of Extraordinary General Meeting published in English language in "Business Standard" and in Hindi language in "Business Standard (Hindi)" on December 12, 2024 for your reference and records.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you. Yours faithfully

By Order of the Board of Directors

For ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

VIPIN SHARMA Digitally signed by VIPIN SHARMA Date: 2024.12.12 12:13:03 +05'30'

(VIPIN SHARMA) Managing Director DIN: 01739519

Reg. Off: 152, Shivani Apartments, Plot No.63, I.P. Extension, Patparganj, East Delhi, Delhi-110092, Nashik Works: GAT No. 353/2, Mauje Talegaon, Dindori, Nashik, Maharshtra-422004 Ph.: +91-9871761020

E-mail: admin@eliteconinternational.com, Web.: www.eliteconinternational.com

BIRLASOFT LIMITED पंजाब नैशनल बैंक 👅 punjab national bank NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075 (Email: finestt@pnb.co.in)

#### **PUBLIC NOTICE**

Sh. Bishwanath Majhi, Chief Manager, Punjab National Bank with Employee ID 5133162 has lost his GBPA No. 0032239. If anyone finds it, please inform

**Chief Manager** 

HIL

**HIL LIMITED** CIN: L74999TG1955PLC000656 Regd. Office: Office Nos. 1 & 2, 7th Floor, SLN Terminus, Survey No. 133,

Beside Botanical Garden, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana, India

# Ph. No.: +91 40 68249000: Email: cs@hil.in | www.hil.in

tice is hereby given to the shareholders of HIL Limited ("the Company") pursuant to the provision of section 124 of the Companies Act. 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, including and statuto odification(s) or amendment(s) for the time being in force ('the IEPF Rules') in connection with the insfer of those equity shares to the IEPF in respect of which dividend(s) remained unpaid/unc the period of seven consecutive years.

this regard, this is to bring to your kind attention that the shares of the shareholders who ridends are unclaimed for seven consecutive years from the date of transfer of interim dividen clared for FY 2017-18 to unclaimed account, are due to be transferred to IEPF on March 1, 2025. ccordingly, the Company has sent an individual communication vide letter dated December 10, 202rough registered post on December 11, 2024 to those shareholders whose shares are liable to be ansferred to the IEPF, at their registered address available with the Company, requesting them to claim such unpaid/unclaimed dividend(s) on or before March 1, 2025 by submitting requisite documents on or before February 21, 2025. Further, in terms of Rule 6(3) of the said Rules, the statement containing the details of name, folio no./demat account no., no. of shares due for transfer long with unpaid/unclaimed dividend amount is made available at investor relations section on the site of the Company https://hil.in/investor-relations/transfer-of-shares-to-iepf/ for info nd necessary action by the shareholders.

n this regard, we request the concerned shareholders to claim such unpaid/unclaimed dividend(s), by making an application immediately to the Company or Registrar and Share Transfer Agent - Venture Capital and Corporate Investments Private Limited, at "AURUM", 4th & 5th Floors, Plot No. 57, Jayabheri Enclave Phase - II, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Tel: 040 - 23818475/35164940 email investor.relations@vccipl.com ("RTA" or "Registrar") atleast 7 days prior to the due date of March 1 2025 i.e., on or before February 21, 2025. If no valid claim is received on or before due date, the Company will be compelled to transfer such unclaimed interim dividend amount for the FY 2017-18 to the IEPF and consequently, transfer the underlying shares held by the concerned shareholders to IEPF thout any further notice, by following the due process as provided in the IEPF Rules, Shareholds requested to note that subsequent to such transfer of the relevant shares to IEPF, all futurn nefits which may accrue thereunder, including future dividends, if any, will be credited to the IEPF Further, the shareholders may kindly note that after the above referred transfer is made, refunds fro the IEPF can be claimed only by complying with the provisions of Rule 7 of the IEPF Rules i.e. b registering themselves on MCA portal at https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/foportal fologin.html and submit web based IEPF-5 Form available on the MCA website. All the documents as enumerated in Web based Form IEPF- 5 are required to be sent in original to the Nodal Officer of the Company at HIL Limited, 6th Floor, Birla Tower, 25 Barakhamba Road, New Delhi -110001.

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividends and shares of the or parterior shareholder(s) uploaded by the Company on its website www.hil.in shall be treated as adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules. Please note that post transfer of upon and unclaimed dividend amount and shares to IEPF, no claim shall lie against the Company except claiming back such unpaid/ unclaimed dividends along with the shares in a manner as prescribe

under the IEFP rules. This notice is made available on the Company's website www.hil.in and on the website of stoc

Date: December 11, 2024

Nidhi Bisar

Pre-Preferential issue Post-Preferential issue

person who has a claim in respect of the said unities should lodge such claim with the npany at its Registered Office within 15 days

from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation.					
FOLIO NO. 0006309					
SHARES	DISTINC	No. OF			
CERT No.	FROM	TO	SHARES		
276	368376	368875	500		
805	37600369	37600868	500		
1292	89427439	89428438	1000		



**TENDER NOTICE** Sealed tender are invited for "RFF through GeM for "End-to-End Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of 1000 Automated Teller Machines (ATMs)(Including UPS, Chemical Earthing, OTC Software, AMC & Spare Cassettes)Under rate Contract for Five Years"

For Eligibility criteria, Detailed scope of work and & other relevant details, RFP may be downloaded from Bank's website https://punjabandsindbank.co.in and GeM portal https://gem.gov.in Any further changes related to the said Tender shall be posted on Bank's website and GeM portal

Asst General Manager

50 years of market wisdom. not market whispers.



### **ELITECON INTERNATIONAL LIMITED**

CIN: L16000DL1987PLC396234 Regd. Off: 152, Shivani Apartments, Plot No. 63, I.P. Extention, Patparganj, Delhi -110092, Email Id: admin@eliteconinternational.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Elitecon International Limited ("the Company") is scheduled to be held or Wednesday, December 18, 2024 at 04.00 P.M., (IST) at the registered office of the Company at 152, Shivani Apartments, Plot No. 63, I.F. Extension, Patparganj, New Delhi -110092. The Notice of the EGM ("EGM Notice") was dispatched to the Shareholders of the Company on November 26, 2024 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and rules made thereunder, read with circulars ssued by Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. Capitalized words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the EGM Notice.

This Corrigendum is being issued to give notice to amend/ provide additional details as mentioned herein and pursuant to the provisions o SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018:

Point (h) of Item No. 2 in the Explanatory Statement is modified to state the following:
In accordance with SEBI ICDR Regulations, the "Relevant Date" for the purpose of determining the issue price of the Equity shares shall be November 14, 2024, being the date 30 days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e., the date of the ensuing Extra-ordinary General Meeting of the Company, i.e. December 18, 2024.

The 30<sup>th</sup> day prior to December 18, 2024 falls on November 17, 2024. However, since November 15 to November 17 2024 were holidays, the day preceding such holiday, i.e. November 14, 2024 has been reckoned to be the Relevant Date. 2. Paragraph (2) of Item No. 2 in the Notice is modified to state the following:

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations, the "Relevant Date" for the purpose of determining the issue price of the Equity Shares shall be November 14, 2024, being the date 30 (thirty) days prior to the date on which this resolution is deemed to have been passed, i.e. December 18, 2024 being the date of the Extraordinary General Meeting of the

Point (f) of Item No. 2 in the Explanatory Statement is modified to state the following:

**Proposed Allottees** 

Identity of the natural persons who are ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the Preferential Allotment

The Shares are proposed to be allotted to persons other than promoters / promoter group of the Company. The details of the proposed allottees are as per the following table. However, voting rights will change in accordance with the shareholding pattern. The pre and post issue holding of the proposed allottees are as under:

**Ultimate Beneficial Owners** 

of the proposed allottees Shares Shares Zeal Global Opportunities Fund Zinnia Investment Manager Ltd Century India Opportunity Bal Krishen & 20,00,000 1.25% AL Maha Investment Fund 30.00.000 Ramchurn Karuna PCC-Onyx Strategy Radiant Arbitrage DMCC Radiant Global Fund-30,00,000 1.88% Class B Participating shares Investi Global Opportunity Fund De Lassus Saint & Genies 30,00,000 1.88% PCC-CELL 1 Etienne Marie Raymond Bridge India Fund Apex Fund Services 30,75,000 1.92% (Mauritius) Ltd; Credo Fund Management Limited & Prans Asset Management Itd Afrin Dia 30,00,000 1.88% TAOM Asset Opportunities Management Limited; Taom Capital & Prans Asset Management Itd Srikant Borra 3.00.000 0.19% Anudeep Naidu Gade 2,00,000 0.13% Indraprastha Agencies (P) Ltd Manjuri Tardevin Private Limite 5,00,000 Lucky Vincom Pvt. Ltd. & Raj Kali Singh Karan Khaitan 1,00,000 Mr. Ankur Sablok jointly with Ankur Sablok & Deepak Setia 2,50,000 0.16% Mr. Deepak Sethia, for and Jasjit Singh 1.50.000 0.09% Mohit Kakkar 1.50.000 0.09% Anuj Goel 2,50,000 Vijay Goel 2,50,000 0.16% 50.000 0.03% Gulshan Kumar Raman Kumar 50,000 0.03% Sachin Kumar Chaturvedi 25,000 0.02% 20. Sasmita Rath 25.000 0.02% Jyoti Tyagi 30.000 Navneet Dhesi 30,000 0.02% 1.00.000 0.06% Shubham Chaudhary Arushi Kumar 1,00,000 0.06% 10,000 Pravin Sanjay Singh 25.000 0.02% Vishvendra Kumar Deepak Gupta 75,000 0.05%

29.

Santosh Sharma

Vipin Kumar

Date: December 11, 2024

There shall be no change in management or control of the Company pursuant to the aforesaid issue of Equity Shares, assuming that all the thares allotted pursuant to the resolution have been exercised into Equity Shares. However, the percentage of shareholding and voting rights exercised by the shareholders of the Company will change in accordance with the change in the shareholding pattern pursuant to the By Order of the Board of Directors

For ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

30.000

15.000

0.02%

0.01%

(VIPIN SHARMA) Managing Director DIN: 01739519

STAR TREK



## SHINE JACOB

Chennai, 11 December

n 1954, when India was taking its baby steps as an independent nation, industry tycoon JRD Tata stitched a partnership with Daimler-Benz for 15 years to launch Tata Mercedes-Benz (TMB) trucks. This was the first time the iconic three-pointed star logo debuted on Indian soil. However, the oldest surviving imported Benz car in India has been with the PC Muthu Chettiar family in Chennai since 1914.

By the onset of economic liberalisation beginning 1991, Mercedes-Benz was no stranger to the Indian market. Sought after by film stars, businessmen, politicians, and other wealthy folk, it was a symbol of luxury and prestige.

The removal of the Licence Raj and beginning of de-licensing was like a gold rush for global automakers. In 1993, as India slashed excise duties as well as import duties on completely knocked-down (CKD) automobile units. That was when the German automobile giant Mercedes-Benz's journey officially started in India with assembly and manufac-

turing in 1994, becoming one of the first auto giants to do so after liberalisation began.

This time, it was through a tie-up with Telco (now Tata Motors), and the Mercedes-Benz W124 series E220 hit the roads the very next year. By 2000-01, Tata Motors sold its entire equity stake in Mercedes-Benz India to Daimler to pursue its own passenger car ambitions.

Come 2024, the premium segment, which was once termed a niche market, is fast evolving with rising disposable incomes and better infrastructure. However, Mercedes-Benz still remains the undisputed luxury king on Indian roads.

In 2023, luxury car sales in India hit an all-time high of around 47,000 units, with Mercedes-Benz India's share at 37 per cent, followed by BMW India with 30 per cent. The latest data from Jato Dynamics India shows that from January to November this year, Mercedes-Benz has seen a more than 8 per cent rise in sales to 16,203 units compared to the

same period last year. BMW India witnessed a 13 per cent rise, but Audi, the third largest brand, saw a 25 per cent dip. JLR and Volvo saw an increase during the period, though from lower bases.

For the first time in history, the luxury car market is poised to cross the sales mark of 50,000 units in 2024, with Mercedes-Benz leading the way, followed by Skoda Auto Volkswagen India, whose brands include Audi, Porsche, and Lamborghini — and BMW, among others. So, what makes Mercedes-Benz the enduring darling of the Indian rich, even after 30 years?

# What drives Mercedes

C S Vigneshwar, president of the Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), speaking about Mercedes in India, says: "It is a status symbol. My grandfather bought a Benz car way back in the 1960s through an embassy auction in Delhi. Even in 2024, I have no plans to sell it, and may probably never sell it, as it is part of my tradition now."

However, the brand's journey has not always been a smooth ride. Mercedes faced stiff competition from 2006-07, when its German rivals -BMW and Audi - made aggressive moves in India. Mercedes responded with a long-term roadmap by building its own factory in Chakan, near Pune, in 2009. Despite this, in 2009, it ceded the top slot to BMW and moved further down the pecking order to number

three by 2012. "Mercedes is a prestigious brand that symbolises success and wealth. Its customers are also exposed to the best luxury in terms of comfort and driving experience. The cabins are also silent, allowing owners to relax or work, as they rarely drive the car themselves. What helped them during that

# **RETAIL SALES**

0EM-wise figures (in units) ■Jan-Nov 2023 ■Jan-Nov 2024

Mercedes	14,975
	16,203
BMW	11,436
	12,933
Audi	6,651
	4,971
JLR	3,138
	4,234
Volvo	1,999
	1,715
Lexus	1,187
	1.238

Source: JATO Dynamics India ++++++

ufacturer locally producing two electric vehicles in India. A lot of localisation efforts and a focus on giving the right products to the market are driving us," says Santosh Iyer, Chief Executive

PRESTIGE ON WHEELS

Mercedes — BMW —

**- 2,908** 

3,625

2008

Sales of top three luxury car players (in units)

14,172-

17,408

7,931

2023

Source: Media & Industry reports

15,000

10,000

5,000

Officer of Mercedes-Benz India. Perhaps the icing on the proverbial cake for the carmaker is its direct-toconsumer retailing of vehicles, which has helped sell 50,000 cars in the last three years, clocking revenues of more than ₹40,000 crore. Now, Mercedes is trying to replicate this Indian model globally and has already launched this in Australia, Germany, the United Kingdom, Turkey, and many more countries.

Iyer sees 2024 as its best-ever year, indicating that the company saw 21 per cent growth during

the last quarter. "This clearly shows that we are outpacing the market at a big rate. This growth should be looked at in comparison to our higher base and we expect double-digit growth this

# **Customer experience**

According to JATO Dynamics, the most popular cars of the company include the Mercedes-Benz GLE, E-Class, GLC, GLA, GLS, and C-Class. "Their line-up extends from ₹51 lakh to ₹1.5 crore. The range of products is expanding, too," says Bhatia. For example, in 2024, the company committed to 10 launches but ended up with 14. This is in addition to technological advancements like connected cars.

According to the company, sports utility vehicles (SUVs) brought in around 55 per cent of its growth this year. In the longer run, though, it is targeting an equal mix of SUVs and sedans. What makes the Mercedes portfolio more attractive is the 25 per cent share of top-end vehicles in its total sales. Entry-level vehicles, on the other hand, contribute hardly 15 per cent.

"When most brands were discussing discounts and stock at dealers' end, we were the only brand with no stock with our dealers, because the entire inventory was owned by Mercedes-Benz India," Iver adds, pointing out that its vehicles have waiting periods of two months to a year. "That put the entire focus of our retail partners on improving the customer experience. The proof is also in the residual value impact, which is the highest in the market when you look at the price after three to

The company has around 100 outlets across 50 cities, and its dealer partners have invested ₹150 crore to transform 40 out-

> demographics of buyers have also changed, with the average age of buyers dropping from 43 years to 38. The share of women buyers increased from 7 per cent to 15 per cent, and the average selling price increased from around ₹53 lakh to ₹89 lakh, moving in line with

The company already has EVs contributing 6 per cent of its sales. We have launched three new EVs





Mercedes-Benz G-Class AMG G 63 (2024)

Interior of Mercedes Benz S Class

time was the focus on the domestic CKD unit and an aggressive aftersales approach that supported customers during service," says Ravi Bhatia, President and Director of JATO Dvnamics India

It may well be this localisation strategy and customer-centric approach that helped Mercedes regain its numero uno spot in 2015, after a gap of six years. Since then, it has been in the driver's seat in the Indian luxury car market.

'We keep the customer at the centre of what we do. Be it in terms of products or product-specific enhancements, we are ahead of others. We are the only luxury original equipment man-

> lets this year to its future DTC model. After the Covid-19 pandemic, the Mecredes-Benz Maybach GLS

developed markets worldwide. in 2024. As a responsible OEM, we need to offer solutions to the market in terms of electrified cars, with a good portfolio of hybrids too," Iyer adds.

नात क्याप्राय (गरि कोर्ग)

AXIS BANK खुदरा ऋणन और मुगतान समृह (स्थानीय कार्यालय ∕ शाखा) : ऐविरसस हाउस, टॉवर टी−2 द्वितीय तल, आई−14, सेक्टर-12& नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विशाटाउन, नोएडा–201301, उ.प्र. **एविसस बैंक लिमिटेड**, तृतीय तल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी−1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन ापुज ८०००८, २०५, **रामका चण्णात्मारू,** वृताय वस्, गागात्मचन, रूपायाना, टाटासा इबार्ट्सका एरिया, मुनितर्सन गेरेड अहिरीती जो मुंबई-ब**०० ७७. पंजीकृत कार्यालय**ः त्रिज्ञूल, तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लीं गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना बित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण तथा पुनोनेमीण एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनेयम् 2002 के साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(8) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचमा

तद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदा के पास अंधक /प्रमारित निम्नवर्णित अचल सम्परित, जिसका गीतिक कब्जा प्रत्यामृत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वार लिया जा चुका है. लोन नंबर XXXXXXXXXXXX271 में श्री तथागत पॉल एवं श्रीमती तानिया मैती की तरक प्रत्यामृत लेनदार की 27-08-2024 तक बकाया राशि **रू. 18.45.674 / - (रूपए अठारह लाख पैंतालीस हजार छह सौ चौहत्त** मात्र) + भावी व्याज और लागतों की वसूली के लिए दिनांक 17-01-2025 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा **'जो भी है वहां है'** आधार पर बेची जाएगी। आवश्यक विवरण के लिए कपया नीचे दी गई नीलामी अनसची देखें :

ज्ञात ऋणभार (याद काइ)	नहा		
सुरिबत मूल्य (रू. में)	रू. 12,82,500/— (रूपए बारह लाख बयासी हजार पांच सौ मात्र)		
धरोहर राशि जमा (रू. में)	रू. 1,28,250/- (रूपए एक लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ पचास मात्र) 'ऐक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/पीओ के माध्यम से		
बोली वृद्धि राशि	रू. 10,000 /- (रूपए दस हजार मात्र)		
ईएमडी के साथ बोली / निविदा जमा करने हेतु अंतिम तिथि, समय और स्थान	15-01-2025 के अप. 05.00 बजे तक ऐक्सिस हाउस, टाकर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी श्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र. में श्री मुकेश सिंह को संबोधित।		
सार्वजनिक ई-नीलामी हेतु तिथि, समय और स्थान	17-01-2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com पर ई-मीलामी निविदा दस्तावेज, जिनमें ई-मीलामी बोली प्रमत्र, घोषणा इत्यादि दिए गए हैं, उपरिवर्णित अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।		

अनुसूची – सम्पत्ति का वर्णन

'एवलोन रेजीडेंसी (फेज-।।) ग्राम उदयपुर, (शहरी क्षेत्र भिवाड़ी) भिवाड़ी बाईपास रोड, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान, सुपर बिल्ट अप एरिया 950 वर्ग फीट (लगभग)। **बिक्री के विस्तृत** नियमों **एवं शतों के लिए, कृपया प्रत्याभूत लेनदार की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः** https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी। इंडिया प्राइदेट लिम्टिट का वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com देखें। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी। इंडिया प्राइदेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन संचालित की जाएगी। केत्ती अन्य सहायता के लिए, इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी **श्री मुकेश सिंह, मोबाइल नंबर +91–997301543** उर कार्यालय समय के दौरान पूर्वो. 10 बजे से अप. 04.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। तिथि : 12–12–2024, स्थान : नोएडा हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, ऐक्सिस बँक लिमिटेड

AXIS BANK खुदरा ऋणन और युगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा) : ऐविस्सत हाजस, टॉवर टी–2 हितीय तल, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, .खा–201901, उ.प्र. **एविसस वैक लिमिटेड,** तृतीय तल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी–1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलस १. आईरोली, नवी मुंबई–400 708, **फंजीकृत कार्यालय** : त्रिज्ञूल, तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्ड-

्राच्या प्राप्त के सामने, लॉ गार्डन अपला सामने, लॉ गार्डन अपला सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिनृतिकरण तथा पुनर्निमाण एवं प्रतिनृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साध्य पठित प्रतिनृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(8) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना

तदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारांरों) तथा गारंटरांरों) को सचना दी जाती है कि प्रत्यानत लेनद हत्युक्षाय विव राजारान का का रिकार कर केक्स्यार्थ्य प्रचान निर्देश के सूचना का जाता है कि अवसूक्त उत्तर कर कि के मास केक प्रभावित मिनावर्षित अवस्त सम्मतित जिसका मीतिक कक्षा प्रयान्त्र सेनदार के प्रक्रिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा युका है, लोन नंकर XXXXXXXXXXXXXX6647 में श्री श्रीनिवास राव एम, श्रीमती अर्थना महाता की तरफ प्रयान्त्र 27-08-2024 तक वकाया राशि रू. 14,88,973/- (रूपए चौदह लाख अठासी हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र) भावी ब्याज और लागतों की वसुली के लिए दिनांक 15-01-2025 को 'जैसी है जहां है', जैसी है जो है' तथा 'जो भी ! **वहां है'** आधार पर बेची जाएगी। आवश्यक विवरण के लिए कृपया नीचे दी गई नीलामी अनुसूची देखें

ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)	नहीं		
सुरिकत मूल्य (रू. में)	रू. ९,००,००० / – (रूपए नौ लाख मात्र)		
धरोहर राशि जमा (रू. में)	रू. 90,000/- (रूमए नब्बे हजार मात्र) 'ऐक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय डीडी/ पीओ के माध्यम से		
बोली वृद्धि चित्र	रू. 10,000 /- (रूपए दस हजार मात्र)		
ईएमडी के साथ बोली / निविदा जमा करने हेतु अंतिम तिथि, समय और स्थान	13-01-2025 के अप. 05.00 बजे तक ऐकिसस हाउस, टाकर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विश्वाटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र. में श्री मुकेश सिंह को संबोधित।		
सार्वजनिक ई-मीलामी हेतु तिथि, समय और स्थान	15-01-2025 को पूर्वो. 11.00 बजे से दोगहर 12.00 बजे तक। 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com पर हुं-नीलामी निविदा दस्तावेज, जिनमें हूं-नीलामी बोली प्रपत्न, घोषणा हत्यादि दिए गए हैं, उपरिवर्णित अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।		
अनुसूची — सम्पत्ति का वर्णन			

गर्टमेंट नंबर ०९, प्रथम तल, टावर–एए, परिमाप ६०० वर्ग फीट, त्रेहन हिल व्यू गार्डन एक्सटेशन, अलवर बाईपास रोड अपाटान नबर छड़, धवन तल, टावर-एए, पारामा उछा वर्ष कार, कहना हत्व व्यू गांडन एक्सटार अलवर ब्रह्मचार रहि. नियाजी, राजस्थान-301019, सींपदारी – टाइटल डींड के अनुसार : पूरा : सेल डीड के अनुसार, परिक्रम : सेक के अनुसार, उत्तर : सेल डीड के अनुसार टाडिण : सेल डीड के अनुसार, खिक्री के किस्तु नियमों एवं बता के लिए, कृश्या प्रत्यामुद्दा लेनदार की देक्साइट में उपस्वक्ष कराया गया लिंक गांनाः https://www.axisbank.com/auction-retail और देक के अनुमोदित सेवा प्रदाता निस्तर्स सीं। इंडिया प्राइटेट लिगिटेड को वेबारेटित की सांप्रदाति की अनुमोदित सेवा प्रदाता निस्तर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिगिटेड के माध्यम से उनके वेबसोर्टल tions.com पर ऑनलाइन संचालित की जाएगी। किसी अन्य सहायता वं 

हस्ता:/- प्राधिकृत अधिकारी, ऐक्सिस बँक लिमिटेर

AXIS BANK खुदरा ऋण एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय/शाखा)ः एविसस हाउस टावर-2. दूसरी मंजिल, I-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र. एक्सिस बैंक लि., तीसरी मंजिल, गीगाप्लेक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया लसन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400 708 **पंजीकृत कार्यालयः** "त्रिशुल", तीसरी मंजिल, सम्राटथेरवर मंदिर के

अचल सामग्रियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना ातिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पूनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित तिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए र्ड-नीलामी विक्री सूचना

जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति प्रत्यामृत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई है,प्रमारित की गई है, प्रत्यामृत ऋणदाता से अधिकृत अधिकारी द्वारा जिस पर मौतिक कब्जा कर लिया गया है एवं ऋण सं. XXXXXXXXXXXX6353 में श्रीमती पूजा पाल से प्रत्यामृत ऋणदाता के प्रति दिनांक 27-08 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया रकम रु. 21,13,533/- (रुपये इक्कीस लाख तेरह हजार पांच सी तैंतीस मात्र) साथ में भविष्य के ब्याज एवं लागत की रकम की वसूली के लिए कथित अचल सम्पत्ति की 16-जनवरी-2025 को "जैसे है जहां है", "जैसे है जो कुछ है" तथा "वहां जो कुछ है" के आधार पर बिक्री की जाएगी। आवश्यक विवरण के लिए कृपया यहां नीचे संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:-चात ऋणभार (गृदि कोर्र है) | नहीं

ज्ञात ऋणमार (याद काइ ह)	181		
आरक्षित मूल्य (रु. में)	रु. 15,50,000/- (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)		
बयाना राशि जमा (रु. में)	रु. 1,55,000/- (रुपये एक लाख पचपन हजार मात्र) 'एक्सिस बैंक		
	लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में भुगतेय डीडी/पीओ के माध्यम से।		
बोली वृद्धि रकम	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)		
ईएमडी के साथ बोलियां/	14-जनवरी-2025 को अपराह्न 05.00 बजे तक एक्सिस हाउस, टावर-		
निविदा जमा करने की अंतिम	<ul> <li>2, दूसरी मंजिल, l-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा-201301, उ.प्र., श्री मुकेश कुमार सिंह को संबोधित किया जाना चाहिए</li> </ul>		
तारीख, समय एवं स्थान			
सार्वजनिक ई-नीलामी की	16-जनवरी-2025 को पूर्वाहन 11,00 बजे से दोपहर 12,00 बजे तक		
तारीख, समय एवं स्थान	प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेब पोर्टल https://		
	www.bankeauctions.com पर,		
	ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि सम्मिलित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज		
	ऊपर उल्लेखित सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है।		

अनुसूची - सम्पत्ति का विवरण हिल मियू गार्डन, त्रेहन होम डेवलपर्स ग्राम थाडा, मिवाडी तकसील कि ग्राम थाडा, भिवाड़ी, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान थत टायर-क्यू की सातवीं मंजिल पर सुपर बिल्ट अप एरिया 1111 वर्ग फीट परिमाप का फ्लैट नं. -118 रूपी सम्पत्ति अथवा भूमि का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा साथ में एक अच्छादित कार पार्किंग के प्रयोग क विशेषाधिकार (जिसे यहां बाद में सम्पत्ति कहा गया है), यह फ्लैट मैसर्स त्रेहन होम डेवलपर्स प्रा. लि. से क्रय

किया गया है। किया मार्च कर्मा के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट पर प्रदत्त लिंक यानी https://www.bankeautions.com देखें। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.bankeautions.com के जिए भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.bankeautions.com के जिए ऑनलाइन संचालित की जाएगी। अन्य किसी मीर्टल साहायता के लिए इच्छुक बोलीदातागण बैंक के अधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार सिंह से मोबाइल नं. +91-9873015430 पर काम के घंटे के दौरान सुबह 10 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। दिनांकः 12.12.2024, हस्ता/- अधिकृत ध्थानः नोएडा

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड **FEDBANK** निगमित कार्यालयः यूनिट नं. 1101, 11वीं मंजिल, सिगनस, प्लॉट नं. 71ए, पोवई, पासपोली, मुंबई — 400 087 महाराष्ट्र कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम् 3 के साथ पुठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन रे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सभी लागतों, शुल्कों व आकिरमक व्ययों आदि के सहित अनुबंध दर पर उसपर भावी ब्याज के सहित LAN-FEDDLHLAP0507239 में 12.09.2024 तक मौजूदा सूचना में वर्णित अनुसार क. 55,27,851.76/— (रुपए पचपन लाख सत्ताईस हजार आठ सी इक्यावन व छियत्तर पैसे केवल) की राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी, गिरवीकर्ता, सह—ऋणी(यों) और गारंटरः (1) श्री राजेश कुमार (ऋणी), (2) मैसर्स रामेश्वर दास संजय कुमार (सह—ऋणी), (3) श्रीमती राजनी जैन (सह—ऋणी), (4) श्रीमती मीना जैन (सह—ऋणी) और (5) श्री अमित जैन (सह—ऋणी) को बुलाने के लिए मांग सूचना हिनांक 18 श्रितंबर 2024 जारी की थी। दिनांक **18 सितंबर, 2024** जारी की थी।

यहां उक्त वर्णित ऋणी, गिरवीकर्ता, सह—ऋणी(यों) व गारंटर निर्धारित अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतदद्वारा ऋणी, गिरवीकर्ता, सह– ऋणी(यों) व गारंटर और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पठित सरफेरी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां

नीचे वर्णित संपत्ति पर **10 दिसंबर, 2024** को **कब्जा** ले लिया है । विशेष रूप से यहां उक्त वर्णित ऋणी, गिरवीकर्ता, सह-ऋणी(यों) व गारंटर और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और निम्नलिखित संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन सभी लागतों, शुल्कों व आकस्मिक व्ययों आदि के सहित अनुबंध दर पर उसपर भावी ब्याज के सहित LAN - FEDDLHLAP0507239 में 12.09.2024 तक राशि रु. 55,27,851. 76 / — (रुपुए पचपन् लाख सत्ताईस हजार आठ सौ इक्यावन व छियत्तर पैसे केवल) की राशि के लिए फेड़बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित संपित्तयों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अनुसूची ।

संपत्ति का विवरण

(फेडफिना को जमा किए गए अचल संपत्ति दस्तावेज का विवरण)

संपत्ति बियरिंग म्यूनिस्पिल नंबर 58 ब्लॉक —ए, क्षेत्र माप 85 वर्ग यार्ड, खर्सरा नं. 98, गांव सराय पिपली थाला के क्षेत्र में, दिल्ली महिंद्रा पार्क के नाम से ज्ञात आबादी, गली नं. 21, दिल्ली में स्थित और सीमाएं निम्नानुसार :

उत्तर में: सड़क 20 फुट संपत्ति नं. ऍ—59

देक्षिण में : सड़क

पश्चिमः उक्त संपत्ति नं. 58 व 57 ए का शेष भाग

स्थान : दिल्ली मैसर्स फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए दिनांक : 10 दिसंबर, 2024 प्राधिकृत प्रतिनिधि सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7).** पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रुडि, कोच्चि—682018, केरल, मारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.05.2023 तक की अवधि के लिए NPA खाते और 31,05.2024 की अवधि तक के कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती खातों) की निम्नलिखित विवरणों अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रथम नीलामी की तिथि: 20.12.2024

दिल्ली-राजीरी गार्डन (बाली नगर) (**0231**): MDL-2259, 2260, 2330, MEG-354, MUL-10566, 10586, 10727, 10870, SRS-143, 216, 259, 261, दिल्ली-मायापुरी (**0468**): MAL-2483, MDL-1466, 1495, MEG-207, MUL-6898, 6903, 6909, 6915, 6930, 7069, SRS-82, 107, 124 दिल्ली-जनकपुरी (0508): MDL-1259, MUL-5051, 5180, 5181, 5184, 5211, 5240, SRS-19, 131, दिल्ली-तिलक नगर (0682): MDL-1696 MEG-301, 384, MUL-4654, 4665, 4666, 4763, 4766, 4841, SRS-3, 66, 93, 103, 107, 112, 118, 142, 143, TMS-1, दिल्ली-पंजाबी बाग (1035): MDL-3016, 3102, 3356, 3555, 3573, MEG-185, MUL-12279, 12326, 12337, 12366, 12490, 12592, 12625, 12629, 12630, 12664, 12673, 12726, 12736, 12754, SRS-105, 182, 191, 209, 256, TMS-31, दिल्ली-सुंदर विहार (1058): MDD-4, MDL-1135, 1240, 1560, MHP-677, 710, MUL-4107, 4297, 4299, 4330, SRS-17, 135, 136, दिल्ली-जेल रोड (जनकपुरी II) (1066): MAL-3711, MDL-1779 2437, MEG-140, 253, MUL-9826, 9877, 9894, 9951, 10037, 10058, 10159, 10234, 10240, 10262, SRS-95, 115, 116, 149, 172, 229 230, 237, दिल्ली-मुख्य नजफ गढ़ रोड (तिलक नगर) (**1069**): MUL-4695, SRS-46, दिल्ली-राजीरी गार्डन (**1104**): MBP-1, MDL-1636, 1798, 1881, MEG-123, 314, MUL-8699, 8729, 8758, 8767, 8817, 8824, 8862, 8904, 9070, 9075, SRS-25, 46, 47, 166, दिल्ली-कीर्ति नगर (1123): BLS-47, 54, 65, MDD-32, MDL-1033, 1186, 1200, MUL-5591, 5673, 5691, 5693, 5699, 5878, SRS-56, 111, 130 <mark>दिल्ली-महावीर नगर (1360):</mark> MDD-117, MDL-834, 1105, MUL-5536, 5618, 5735, 5824, 5836, 5848, 5850, 5943, 5954, 5980, 5991 6012, 6035, 6062, SRS-33, 41, 43, 62, 77, 90, 92, <mark>दिल्ली-टैगोर गार्डन (1376):</mark> MDL-2242, 2318, 2374, 2679, MEG-150, MUL-9391 9829, 9847, 10159, 10171, 10193, 10194, 10255, SRS-52, 61, 105, 106, 113, दिल्ली-हरि नगर घंटाघर (1437): MDL-1165, 1339, 1347 MUL-5741, 5822, 5844, 5884, 5951, 5970, SRS-49, 71, 72, 73, 75, 76, 96, दिल्ली-विष्णु गार्डन (1482): MAL-4161, MDL-3395 MEG-456, MUL-8372, 8404, 8476, 8535, 8757, 8837, SRS-43, 164, 183, 233, TMS-29, दिल्ली-गणेश नगर (1483): MDL-1546, 1571 1630, MEG-223, 224, 239, MUL-5977, 5994, 6014, 6026, 6138, 6247, 6261, 6276, 6294, 6319, 6322, 6339, 6451, 6452, SRS-73 दिल्ली-मानसरोवर गार्डन (1502): MAL-1340, MDL-875, 896, MHP-427, MUL-4218, 4268, TMS-9, 18, दिल्ली-रमेश नगर (1522): MEG-127, 165, MUL-6062, 6353, 6377, 6379, 6381, 6404, 6405, 6416, 6441, 6606, SRS-130, 131, 134, 166, 167, 178 दिल्ली-नारायणा (1657): MDL-1148, 1301, 1472, MEG-137, MUL-8480, 8588, 8620, 8641, 8666, 8668, 8682, 8684, 8723, 8868, 8939 8965, 8966, 9006, SRS-47, 74, 108, 134, 140, 141, 150, TMS-44, दिल्ली-गुरु नानक नगर (1679): MAL-4044, MDL-2101, 2305, 2599, 2634, MUL-8863, 9069, 9077, 9239, 9253, 9313, 9544, 9566, 9568, 9569, 9602, 9612, 9629, 9642, SRS-4, 63, दिल्ली-मोती नगर (1720): MDL-2416, MEG-209, 223, MHP-348, MUL-11615, 11641, 11660, 11776, 11892, 11933, 11948, SRS-127, 343, 344, 346, TOS-1, <mark>दिल्ली-इंद्रपुरी (1780)</mark>; BLS-54, 56, 60, MAL-3048, MDL-1966, MUL-8020, 8046, 8313, 8446, 8483. SRS-39. **दिल्ली-स**भाष नगर (1970): MUL-6837, 6932, 6961, 6967, 7063, 7081, 7152, SRS-100, दिल्ली-मुखरम गार्डन (2015): MUL-7805, 7841, 7875, 7890, 7966, 8105, 8132, 8147, 8159, 8244, 8249, SRS-117, 155, 166, 173, 191, दिल्ली-मुल्तान नगर (2825): MDL-1287, MUL-6260, 6261, 6306, 6347, 6433, 6457, SRS-10, 166, दिल्ली-मीनाक्षी गार्डन (2869): MBS-3, MUL-3163, 3264, 3277, 3280, 3282, SRS-46, दिल्ली-ओल्ड तिलक नगर (3044): MAL-2373, MDL-1830, MUL-7155, 7197, 7203, 7214, 7227, 7273, 7513, 7546, 7588, 7604, 7605, 7610, 7641, 7673, 7710, SRS-67, TMS-10, **दिल्ली-संतगढ़ (3105):** MDL-2137, 2418, 3121, MEG-316, MUL-10960, 11197, 11279, 11367, 11552 11556, दिल्ली-करमपुरा **(3297):** MDL-930, 931, 1201, MUL-4680, 4813, 4946, 4963, दिल्ली-किरारी चौक **(3473):** MDD-7, MDL-3459 3485, 4856, MUL-16240, 16515, 16914, 17840, 17931, 17962, 17993, 18007, 18045, 18159, 18195, 18252, 18290, 18305, 18421, 18458, 18474, 18502, 18505, 18607, 18614, 18879, 18926, 19067, 19156, 19180, 19187, 19275, SRS-10, 54, 159, 161, 308, 356, 370, 441, 465, दिल्ली-ख्याला रोड (3683): MAL-2211, MDL-1467, MUL-5574, 5590, 5644

कम टंच/कम शुद्धता/अपर्याप्त वजन कटौती: दिल्ली-राजौरी गार्डन (बाली नगर) (0231): MGM-84, दिल्ली-सुंदर विहार (1058): TMS-445 द्वितीय नीलाँमी की तिथि: 21.12.2024, नीलामी स्थान: मुथुट फाईनान्स लिमिटेड, ए-33/34, पहली मंजिल, रिंग रोड, राजौरी गार्डन, दिल्ली-110027

प्रथम नीलामी की तिथि: 24.12.2024

दिल्ली-नारायणा(1657): MDL-2480 द्वितीय नीलामी की तिथि: 26.12.2024, नीलामी स्थान: मुथुट फाईनान्स लिमिटेड, ए-33/34, पहली मंजिल, रिंग रोड, राजौरी

गार्डन, दिल्ली-110027 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी 

दूषरी नाताना के तिर्पाल कर किया है। जिस के माना के प्रति के प्रति के जाती है। जाती छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्व कर सकते हैं।

## एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L16000DL1987PLC396234 पंजीकृत कार्यालयः 152, शिवानी अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 63, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092

ई-मेलः admin@eliteconinternational.com

असाधारण आम बैठक की सूचना में संशोधन

एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड **("कंपनी")** के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक बुधवार, 18 दिसम्बर, 2024 को अपराहन 04.00 बजे (भामास) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 152, शिवानी अपार्टमेंटस, प्लॉट नं. 63, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092 ों आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन के तहत शेयरधारकों को ईजीएम की सूचना **(''ईजीएम सूचना'')** 26 नवम्बर, 2024 को भेज दी गई है। बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो यहां उपयोग किए गए हैं, लेकिन परिभाषि नहीं किए गए हैं, वहीं अर्थ होगा जो ईजीएम सूचना में उन्हें दिया गया है।

यह शुद्धिपत्र संशोधन की सूचना देने/यहां उल्लिखित अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए तथा सेबी (पूंजी जारी करने और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है:

व्याख्यात्मक विवरण में मद संख्या 2 के बिंदु (एच) को निम्नलिखित का उल्लेख करने के लिए संशोधित किया गया है: सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, इक्विटी शेयरों के निर्गम मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए 'प्रासंगिक तिथि' 14 नवंबर,

2024 होगी. जो इस प्रस्ताव को पारित माने जाने की तारीख से 30 दिन पहले की तारीख यानी कंपनी की आगामी असाधारण आम बैटक की तारीख, यानी 18 दिसंबर, 2024 होगी। 18 दिसंबर 2024 से पहले का 30वां दिन 17 नवंबर 2024 है। हालाँकि, चूंकि 15 नवंबर से 17 नवंबर 2024 तक अवकाश के दिन

थे, इसलिए इस अवकाश के दिनों से पहले का दिन, यानी 14 नवंबर 202<sup>2</sup> को प्रासंगिक तारीख माना जाएगा। सूचना में मद संख्या 2 के अध्याय (2) को निम्नलिखित का उल्लेख करने के लिए संशोधित किया गया है:

आगे यह भी प्रस्तावित किया गया कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, इक्विटी शेयरों के निर्गम मुल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य हेतु 'प्रासंगिक तिथि' 14 नवंबर, 2024 होगी, जो इस प्रस्ताव को पारित माने जाने की तारीख से 30 (तीस) दिन पहले की तारीख होगी, यानी कंपनी की असाधारण आम बैठक की तारीख यानी 18 दिसंबर, 2024 होगी।

व्याख्यात्मक विवरण में मद संख्या 2 के बिंदु (एफ) को निम्नलिखित का उल्लेख करने के लिए संशोधित किया गया है उन प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान जो आवंटित किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों के अंतिम लाभकारी खामी हैं, अधिमान्य निर्गम के बाद उनके द्वारा घारित पूंजी का प्रतिशत तथा अधिमान्य आबंटन के परिणामस्वरूप जारीकर्ता में नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो। शेयरों को कंपनी के प्रमोटरों/प्रमोटर समूह के अलावा अन्य व्यक्तियों को आवंटित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित आवंटियों का विवरए

निम्नलिखित तालिका के अनुसार है। हालाँकि, शेयरधारिता स्वरूप के अनुसार वोटिंग अधिकार बदल जाएंगे। प्रस्तावित आवंटियों की पहले एवं बाद की होल्डिंग निम्नानुसार है: गी-पिक्टेंपियाल स्पर्स प्रोक्ट-पिक्टेंपियाल स्परा

क्र.	प्रस्तावित आवंटी	प्रस्तावित आवंटियों के	प्री-प्रिफरेंशियल इश्यू		पोस्ट-प्रिफरेंशियल इश्यू	
सं.		अंतिम लाभार्थी स्वामी	शेयर	%	शेयर	%
1.	जिल ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड	जिन्निया इंनेवेस्टमेंट मैनेजर लि.	-	-	30,00,000	1.88%
2.	सेंचुरी इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड पीसी	बाल कृष्ण एवं दीपक कुमार सर्वार्थिया	-	-	20,00,000	1.25%
3.	एएल महा इन्वेस्टमेंट फंड पीसीसी-ओनिक्स स्ट्रैटेजी	रामचूर्ण करुणा	-	-	30,00,000	1.88%
4.	रेडियंट ग्लोबल फंड- क्लास बी सहभागी शेयर	रेडियंट आर्बिट्रेज डीएमसीसी	-	-	30,00,000	1.88%
5.	इन्वेस्टी ग्लोबल ऑपर्च्युनिटी फंड पीसीसी-सेल 1	डी लासस सेंट एंड जेनीस एटिएन मैरी रेमंड	-	-	30,00,000	1.88%
6. ब्रिज इंडिया फंड एपेक्स फंड सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड; क्रेडो फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और प्रांस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड		-	-	30,75,000	1.92%	
7.	अफरीन दीया	टीएओएम एसेट ऑपर्च्युनिटीज मैनेजमेंट लिमिटेड; ताओम कैपिटल एंड प्रांस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	-	-	30,00,000	1.88%
8.	श्रीकांत बोर्रा	-	-	-	3,00,000	0.19%
9.	अनुदीप नायडू गाडे	-	-	-	2,00,000	0.13%
10.	इंद्रप्रस्थ एजेंसीज (पी) लिमिटेड	मंजुरी टार्डेविन प्राइवेट लिमिटेड; लकी विनकॉम प्रा. लिमिटेड एवं राज काली सिंह	-	-	5,00,000	0.31%
11.	करण खेतान	-	-	-	1,00,000	0.06%
12.	श्री अंकुर सबलोक संयुक्त रूप से श्री दीपक सेठिया के साथ पाइन कैंपिटल के लिए तथा की ओर से	अंकुर सबलोक और दीपक सेतिया	-	-	2,50,000	0.16%
13.	जसजीत सिंह	-	-	-	1,50,000	0.09%
14.	मोहित कक्कड़	-	-	-	1,50,000	0.09%
15.	अनुज गोयल	-	-	-	2,50,000	0.16%
16.	विजय गोयल	-	-	-	2,50,000	0.16%
17.	गुलशन कुमार	-	-	-	50,000	0.03%
18.	रमन कुमार	-	-	-	50,000	0.03%
19.	सचिन कुमार चतुर्वेदी	-	-	-	25,000	0.02%
20.	सस्मिता रथ	-	-	-	25,000	0.02%
21.	ज्योति त्यागी	-	-	-	30,000	0.02%
22.	नवनीत ढेसी	-	-	-	30,000	0.02%
23.	शुभम चौधरी	-	-	-	1,00,000	0.06%
24.	आरुषि कुमार	-	-	-	1,00,000	0.06%
25.	प्रवीण संजय सिंह	-	-	-	10,000	0.01%
26.	विश्वेंद्र कुमार	-	-	-	25,000	0.02%
27.	दीपक गुप्ता	-	-	-	75,000	0.05%
28.	संतोष शर्मा	-	-	-	30,000	0.02%
29.	विपीन कुमार	_	_	_	15,000	0.01%

इक्विटी शेयरों के उपरोक्त निर्गम के बाद कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह मानते हुए कि प्रस्ताव के अनुसार आवंटित सभी शेयरों का उपयोग इक्विटी शेयरों में किया गया है। हालाँकि, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शेयरधारिताँ और मतदान अधिकारों का प्रतिशत अधिमान्य आवंटन के अनुसार शेयरधारिता प्रारूप में परिवर्तन के अनुसार बदल जाएगा।

तारीखः 11 दिसम्बर, 2024

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (विपिन शर्मा)

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 01739519

# उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय : ९वी, पूझा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दित्ली, पिन कोड- 110 060 पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच- 31 (एयरपोर्ट मार्ग), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221 105

# अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना

रतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ल 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें इसके बाद निम्न तालिका में वर्णितानसार प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर मांग सचनायें निर्गत की थीं. जिनमें उधारकर्ताओं को बकाया राशि का, उक सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। मूँकि उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण

सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की <sub>भारा</sub> 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर **अधिग्रहण** कर लिया है। अतः अब ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन—देन न करें तथ संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, यहां इसमें निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष निम्नानुसार अंकित बकाया धनराशि और इस राशि पर नियत ब्याज हेतु **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (a) के प्रावधानों वं ओर आकष्ट किया जाता है।

1	- II (	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11					
	क्र. सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ज्धारकर्ता / गारंटर (संपत्ति के स्वामी) का नाम	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण सूचना की तिथि	माँग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
	1	नोएडा	मनोज क्रिएशन खाता संख्या 151406000 0006030	मैसर्स मनोज क्रिएशन, अपने रवामी के माध्यम से (उधारकर्ता) श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री दाल चंद वर्मा (सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता) सुश्री वंदना वर्मा पत्नी मनोज कुमार वर्मा (सह-उधारकर्ता / स्वा	24-09-2024	09-12-2024	₹ 22,97,574/-

संपत्ति/यों के विवरण: स्वामित्वधारक वाणिज्यिक संपत्ति एक दुकान सं. ४ के समस्त वह भाग तथा अंश जो भू तल पर, छत स्तर तक, निजी क्षेत्र मापन 8.55 वर्ग गज अर्थात् 7.15 वर्ग मीटर धारक, निर्मित संपत्ति सं.- एक्स/3559, खसरा सं. 75 में से, चमेली देवी मंदिर मार्ग के क्षेत्र, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, ग्राम– घोंडी आबादी इलाका शाहदरा दिल्ली 110031 में स्थित तथा संपत्ति निम्नानुसा परिसीमित है :- पूर्व- उक्त संपत्ति का भाग, उत्तर- अन्य संपत्ति, पश्चिम- सड़क, दक्षिण- दुकान सं.- 3

दिनाँक : 12-12-2024 स्थान : दिल्ली

हस्ता. /-अनिल कुमार शर्मा (प्राधिकृत अधिकारी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



## एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक कार्यालय : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली – 110002 ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. (एलआईसी एचएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों वं प्रतिमृतिकरण एवं पूर्नार्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के अंतर्गत और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 व साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों को **मांग सूचना** निर्गत की थी जिसमें उक्त सूचनाओं में उल्लिखित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। हालाँकि, उधारकर्तागण / बंधककर्तागण गारंटरगण उक्त देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए अघोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अघिनियम कं धारा 13(4) और धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का **भौतिक अधिग्रहण (पी)** कर लिया है।

एतदृद्वारा यह सूचना सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ऑ) / गारंटर(रॉ) को दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति एलआईसी एचएफएल के पास बंधक रखी गई है, जिसका अधिग्रहण **एलआईसी एचएफएल** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसे नीलामी की तिथि को **"जैसी है जहां है", "जैसी है जैसा है" तथा "वहां जो कुछ मी है" तथा "बिना किसी सहारा"** आधार पर बेच जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण में बताया गया है।

#### संपत्ति 1 – उधारकर्ता(ऑ) के नाम :- श्रीमती सरोज (आवेदक) / श्री जगदीश कुमार (गारंटर) ऋण संख्या : 312300004133 संपत्ति का विवरण

**संपत्ति का पूर्ण विवरण :**— संपूर्ण तीसरी मंजिल, छत∕टेरेस अधिकारों के साथ, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या एच−3∕123 में से, 80 वर्ग गर का क्षेत्रफल, सीढ़ी उपमार्ग और प्रवेश द्वार और साथ ही स्टिल्ट फ्लोर पर एक स्कूटर / बाइक पार्किंग के साथ, खसरा संख्या 79 / में से, महावीर एन्वलेव, नई दिल्ली की आबादी में ग्राम पालम के क्षेत्र में स्थित है, उक्त संपत्ति के नीचे के आनुपातिक भूमि अधिकारों व साथ। कुल क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर, **जो निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर**- उपरोक्त संपत्ति का शेष भाग, **दक्षिण**– सड़क; **पूर्व**– गली **पश्चिम**— अन्य संपत्ति।

मांग सूचना की तिथि : 02.06.2022 खाता विवरण मांगी गई राशि : रु. 29,38,866.72 भावी ब्याज, लागत और लामार्थी का नाम : एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड **बैंक :** एक्सिस बैंक, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हब अधिग्रहण की तिथि (पी) : भौतिक अधिग्रहण— 23.08.2024 खाता संख्या : HFLENODEPI04133 आईएफएससी कोड : UTIB0CCH274 **आरक्षित मूल्य :** रु. 30,00,000 /— (रुपये तीस लाख मात्र) **ई-नीलामी सेवा प्रदाता का नाम**ः मैसर्स 4 क्लोजर **ईएमडी** : रु. 3.00.000 /— (रुपये तीन लाख मात्र)

**दिनांक 11.12.2024 के अनुसार देय कुल राशि** :— रु. 35,06,358.61 (रुपये पैंतीस लाख छह हजार तीन सौ अट्ठावन और इकसठ पैसे मात्र)

वसाइट : https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com संपत्ति 2 – उधारकर्ता(ऑ) के नाम – श्री राकेश कुमार शर्मा (आवेदक)

और सुश्री अनीता शर्मा (सह-आवेदक) और श्री नितिन कपूर (गारंटर) ऋण संख्या : 312300003238

संपत्ति का विवरण **संपत्ति का पूरा विवरण :--** प्लॉट नंबर 55 के हिस्से वाली संपत्ति पर निर्मित दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल छत / छज्जा के अधिकार

के साथ, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा सं. 17/5 में से, मटियाला गांव, दिल्ली राज्य दिल्ली की राजस्व संपदा, कॉलोनी जिसे मटियाला एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, टीए – नजफगढ़ रोड पर ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 में स्थित है। भू तल पर दो बाइक पार्किंग की जगह। कुल क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर। **इस प्रकार परिसीमित है :- उत्तर :** प्लॉट का बचा हुआ हिस्सा **दक्षिण** : 15 फीट की सड़क; **पूर्व** : प्लॉट सं. 44; **पश्चिम** : फार्म हाउस और लेन 3 फीट। मांग सचना की तिथि : 28.07.2022

नाग सूचना का तिथ - 28.07.2022	खाता ।ववरण		
मांगी गई राशि : रु. 35,37,014.16 भावी ब्याज, लागत और	लामार्थी का नाम : एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		
व्ययों के साथ।	वैंक : एक्सिस बैंक, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हब		
अधिग्रहण की तिथि (पी) : भौतिक अधिग्रहण— 06.02.2023	खाता संख्या : HFLENODEPI03238		
<b>आरक्षित मृत्य :</b> रु. 40,38,000 /— (रुपये चालीस लाख अड़तीस	आईएफएससी कोड : UTIB0CCH274		
हजार मात्र)	<b>ई-नीलामी सेवा प्रदाता का नाम</b> : मैसर्स 4 क्लोजर		
ईएमडी : रु. 4,03,800 /- (रुपये चार लाख तीन हजार आठ सौ मात्र)			

**दिनांक 11.12.2024 के अनुसार देय कुल राशि** :- रु. 49,70,492.55 (रुपये उनचास लाख सत्तर हजार चार सौ बयानबे और पचपन पैसे मात्र)

वेबसाइट : https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com

संपत्ति 3 – श्रीमती सुनीता सदनानी (आवेदक), श्री सुजीत कुमार सदनानी (सह–आवेदक), सुश्री ममता सदनानी (सह-आवेदक) और श्री मोह. जसबीर हुसन (गारंटर) ऋण संख्या : 312300003228 संपत्ति का विवरण

संपत्ति का पूरा विवरण :- प्लॉट संख्या 10 पर निर्मित निर्मित संपत्ति का पूरा दूसरा तल, छताधिकारों के बिना, नगरपालिक संख्या डब्ल्यूजेड– 1731, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, मुस्ततिल संख्या 27, किला संख्या 19 में से, रानी बाग, शकूर बस्ती दिल्ली—110034, गांव शकूरपुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर है। **इस प्रका**र परिसीमित है :- उत्तर : सड़क; दक्षिण : अन्य की संपत्ति; पूर्व : अन्य की संपत्ति (शेष भाग); पश्चिम : अन्य की संपत्ति।

मांग सूचना की तिथि : 07.03.2022	खाता विवरण		
मांगी गई राशि : रु. 38,94,322.91 भावी ब्याज, लागत और	लामार्थी का नाम : एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		
व्ययों के साथ।	वैंक : एक्सिस बैंक, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हब		
अधिग्रहण की तिथि (पी) : भौतिक अधिग्रहण— 13.02.2023	खाता संख्या : HFLENODEPI03228		
<b>आरक्षित मृत्य :</b> रु. 33.25,000/— (रुपये तैंतीस लाख पच्चीस	आईएफएससी कोड : UTIB0CCH274		
हजार मात्र)	<b>ई-नीलामी सेवा प्रदाता का नाम</b> ः मैसर्स 4 क्लोजर		
<b>ईएमडी :</b> रु. 3,32,500/— (रुपये तीन लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)			
दिनांक 11.12.2024 के अनुसार देय कल राशि :- रु. 60.42	१९१३.७३ (रुपये साठ लाख बयालीस हजार नौ सौ तेरह और		

1	विनाक 11.12.2024 के अनुसार देय कुल राशि :- रु. 60,4 तिहत्तर पैसे मात्र)	.2,913.73 (रुपर्य साठ लाख बयालीस हजार नी सी तेरह और
1	वेबसाइट : https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com	n
7		26.12.2024 को मध्या. 11:00 से अप. 1:00 बजे के मध्य
_	तिथि और समय :— संपत्ति का पता जहां प्रलेखों का निरीक्षण किया ज सकता है :—	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बैक ऑफिस : लक्ष्मी इंश्योरेंस विल्डिग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली — 110002
	संपत्ति का निरीक्षण :	26 12 2024 को मध्या 11:00 से अप 1:00 बजे के मध्य

संपर्क व्यक्ति : श्रीमती नेहा कुमारी संपर्क विवरण :- मोबाइल 9555594753 सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का संपर्क विवरण : ई-नीलामी सेवा प्रदाता का पता, डीलिंग व्यक्ति का नाम, ई-मेल अं संपर्क विवरण :- मैसर्स 4 क्लोजर : वेबसाइट का नाम https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com, ਜਿਹ वेबसाइट : व्सगण्पद; कार्यालय ई—मेल : पदवि/इंदांनबजपवदेण्पद कार्यालय का पता : मैसर्स 4 क्लोजर, रु605 ए, 6टवां तल, मैत्रीवनग एचएमडीए, अमीरपेट, हैदराबाद— 500038, तेलंगाना; हेल्पलाइन डेस्क लैंडलाइन : 040—23736405 या 8142000062 / 66; टी. जया प्रकाश रेड्डी प्रबंधक— संचालन; मोबाइल नंबर : 8142000064, ई—मेर

ऑनलाइन निविदा / बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक और इस समय तक :-** 27.12.2024 को सायं 5:00 बजे से पहले ई—नीलामी तिथि : नीलामी की तिथि और नीलामी की समयाविध :- 30.12.2024 को मध्या. 11:0

नीलामी के अन्य समी नियम व शर्ते आधिकारिक वेबसाइट — https://online.lichousing.com/eauction/ पर **अनुलग्नक 2** के रूप

उल्लिखित हैं। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत 15 दिक्सीय साँविधिक विक्रय सूचना

दिनाँक : 12—12—2024 स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

आईडी : prakash@bankauctions.in